



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 माघ 1937 (श0)  
(सं0 पटना 137) पटना, बुधवार, 10 फरवरी 2016

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना  
3 फरवरी 2016

सं० 3/एम0-19/2015-1705-सा0प्र0—संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों के नियमितिकरण के मामलों की बिहार लोक सेवा आयोग (कार्यसीमन) विनियमावली, 1957 (समय-समय पर यथा संशोधित), बिहार कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2002 (समय-समय पर यथा संशोधित), संबंधित पदों की नियुक्ति संबंधी नियमावलियों एवं इस संबंध में पारित विभिन्न न्याय निर्णयों तथा राज्य में लागू आरक्षण संबंधी प्रावधानों के आलोक में जाँच कर, उनकी सेवा के नियमितिकरण के लिए अनुशंसा करने हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक 6161 दिनांक 24.04.2015 द्वारा उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। अधिसूचना संख्या 6862 दिनांक 12.05.2015 द्वारा मनोनीत श्री अशोक कुमार चौधरी, (भा0प्र0से0, 1972) द्वारा दिनांक 13.05.2015 को उक्त समिति के अध्यक्ष-पद का प्रभार ग्रहण किया गया।

उक्त संकल्प की कंडिका-4 में प्रावधानित है कि मामलों पर विचार करने के पश्चात् समिति अपनी अनुशंसा 3 (तीन) माह के भीतर राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगी। तदालोक में समिति का कार्यकाल दिनांक 13.08.2015 को समाप्त हो जाने के पश्चात् कार्य की विशदता को देखते हुए, विभागीय अधिसूचना संख्या 13219 दिनांक 03.09.2015 द्वारा दिनांक 13.11.2015 तक एवं पुनः विभागीय अधिसूचना संख्या 16900 दिनांक 07.12.2015 द्वारा दिनांक 13.02.2016 तक विस्तारित किया गया।

समिति का प्रतिवेदन/अनुशंसा उक्त विस्तारित तिथि तक भी प्राप्त नहीं होने एवं उसके द्वारा किये जाने वाले अनुशंसाओं के क्रियान्वयन का दायित्व भी समिति पर ही होने के कारण सम्यक विचारोपरांत समिति के कार्यकाल को अगले 6(छह) माह अर्थात् दिनांक 13.08.2016 तक विस्तारित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
अश्विनी दत्तात्रेय ठकरे,  
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 137-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>